



# झारखण्ड गजट

## असाधारण अंक

### झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

---

9 पौष, 1940 (श०)

संख्या- 87 राँची, मंगलवार,

29 जनवरी, 2019 (ई०)

---

#### नगर विकास एवं आवास विभाग

-----  
अधिसूचना

1 नवम्बर, 2018

**अधिसूचना संख्या-5/न०वि०/विविध-82/2018-5298--** शहरी क्षेत्रों में विकास कार्यों के क्रम में अक्सर पाया जाता है कि सड़कों के निर्माण किये जाने के उपरान्त सिवरेज-ड्रेनेज या जलापूर्ति हेतु पाईप लाईन बिछाये जाने हेतु सड़कों की खुदाई कर दी जाती है। फलस्वरूप इससे आम जनता को समस्याओं का सामना करना पड़ता है। साथ ही, पूर्व निर्मित आधारभूत संरचना दुष्प्रभावित होती है एवं राजस्व की क्षति होती है।

2. उक्त क्रम में नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड द्वारा Area Based Development करने का निर्णय लिया गया है। इसके अंतर्गत सड़कों के निर्माण के साथ ही सिवरेज-ड्रेनेज, सेप्टेज, शहरी जलापूर्ति एवं गैस आपूर्ति हेतु पाईप लाईन बिछाया जाएगा। इसके साथ ही अन्य Utility, जैसे- फुटपाथ, स्ट्रीट लाइट, दूरसंचार केबल आदि का प्रावधान भी किया जाएगा।

3. राज्य के सभी शहरी स्थानीय निकायों में उक्त प्रकार के निर्माण कार्य में एकरूपता लाने की दृष्टि से एक Integrated Road Development Policy का निर्माण किया जाना अपेक्षित है। इस नीति के निर्माण हेतु निम्न रूप से एक समिति का गठन किया जाता है:-

- |      |  |   |         |
|------|--|---|---------|
| i.   | निदेशक, राज्य शहरी विकास अभिकरण                                    | - | अध्यक्ष |
| ii.  | उप सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग                                  | - | सदस्य   |
| iii. | श्री उत्कर्ष मिश्रा, उप परियोजना निदेशक, सर्वश्री जुडको लि०, राँची | - | सदस्य   |
| iv.  | उप नगर आयुक्त, राँची नगर निगम                                      | - | सदस्य   |

4. समिति के गठन के प्रस्ताव पर माननीय विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

**अजय कुमार सिंह,**  
सरकार के सचिव।

-----